



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062023-246484
CG-DL-E-13062023-246484

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2023/ज्येष्ठ 22, 1945

No. 391]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 2023/JYAISHTHA 22, 1945

भारतीय उपचर्या परिषद्

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 2023

फा.सं. 18-36/8476-आईएनसी.:—समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :—

जबकि, किंगपिन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सेवा मिशन अस्पताल, चिल्दग रोड, गोंदली पोखर, अनागरा, रांची-835103 (झारखंड) झारखंड राज्य सरकार तथा झारखंड उपचर्या पंजीकरण परिषद् द्वारा बी.एससी. (नर्सिंग) पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

वहीं, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14 के तहत मान्यता वापस लेने के लिए मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड राज्य सरकार, नेपाल हाउस, दोरंदा, रांची-834002, झारखंड को संबोधित नोटिस संख्या 18-36/8476-आईएनसी दिनांक 16.09.2022 को जारी किया गया था। दिनांक 16.09.2022 को जारी नोटिस की एक प्रति किंगपिन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सेवा मिशन अस्पताल, चिल्दग रोड, गोंदली पोखर, अनागरा, रांची-835103 (झारखंड) को भी भेजी गई थी। जारी किए गए नोटिस में राज्य सरकार से नर्सिंग संस्थान की उपयुक्तता के संबंध में परिषद् को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

चूंकि, परिषद् को संस्थान से दिनांक 01.10.2022 का पत्र प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात् भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा एक और पत्र दिनांक 09.01.2023 को जारी किया गया था। संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

वहीं, परिषद् ने इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है। दिनांक 01.04.2022 की निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि संस्थान में कई मामलों में कमी है, विशेष रूप से वे कमियां जो नैदानिक और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित हैं। ये कमियां गंभीर हैं जो दर्शाती हैं कि संस्थान **बी.एससी. (नर्सिंग)** पाठ्यक्रम चलाने में असमर्थ है।

अतः, भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 14(3)(बी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् यह घोषणा करती है कि दिनांक 23.02.2023 से **किंगपिन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सेवा मिशन अस्पताल, चिल्दग रोड, गोंदली पोखर, अनागरा, रांची-835103 (झारखंड)** से **बी.एससी. (नर्सिंग)** मान्यता प्राप्त योग्यता धारक प्रत्येक व्यक्ति झारखंड राज्य सरकार के आदेशों के अधीन केवल **झारखंड राज्य** में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

लेफ्टिनेंट कर्नल (डॉ.) सर्वजीत कौर, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./171/2023-24]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 9th June, 2023

F.No. 18-36/8476-INC.—In exercise of the powers conferred under Section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:—

Whereas, **Kingpin College of Nursing** situated at **Sewa Mission Hospital, Childag Road, Gondli Pokhar, Anagara, Ranchi – 835103, Jharkhand** is recognized by State Government of Jharkhand and Jharkhand Nurses & Registration Council to conduct **B.Sc(N)** Course.

Whereas, a notice no. 18-36/8476-INC dated 16/09/2022 for withdrawal of Recognition under section 14 of Indian Nursing Council Act, 1947 addressed to Chief Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of Jharkhand, Nepal House, Doranda, Ranchi – 834002, Jharkhand was issued. Copy of the notice dated 16/09/2022 was also enclosed to **Kingpin College of Nursing** situated at **Sewa Mission Hospital, Childag Road, Gondli Pokhar, Anagara, Ranchi – 835103, Jharkhand**. In the notice issued, the State Government was requested to submit their recommendations to the Council as respects Suitability of the nursing institution.

Whereas, the Council received a letter dated 01/10/2022 from the institution. Thereafter Indian Nursing Council issued a letter dated 09/01/2023. No action, as required, has been taken by the institution.

Whereas, the Council has considered the matter in its entirety. Perusal of the inspection report dated 01/04/2022 would show that the institution is deficient in many respects especially those relating to deficiencies i.e., clinical and teaching facilities. These are serious deficiencies which constitute the institution is unable to run **B.Sc(N)** Course.

Now therefore, the Council exercising powers under section 14(3)(b) declares that with effect from 23/02/2023 any person holding a recognized qualification of **B.Sc(N)** from **Kingpin College of Nursing** situated at **Sewa Mission Hospital, Childag Road, Gondli Pokhar, Anagara, Ranchi – 835103, Jharkhand** shall be entitled to be registered only in the State of **Jharkhand** subject the orders of **State government of Jharkhand**.

Lt. Col (Dr) SARVJEET KAUR, Secy.
[ADVT.-III/4/Ext./171/2023-24]